

Seventeenth Loksabha

an&gt;

Title: Issue regarding wearing of hijab by Muslim women.

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है। इसे रखने दिया जाए। बात यह है कि सदन के अंदर हम लोग 'सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास' जैसी बड़ी-बड़ी बात करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि हिन्दुस्तान में समानता है और सबको समान अधिकार है। यह हम मानकर चलते हैं। लेकिन, कई दिनों से हिन्दुस्तान के बहुत सारे कोनों से यह खबर आ रही है कि मजहब के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ घिनौनी कार्रवाई की जा रही है। धर्म हम सबके लिए समान है। धर्म के नाम अलग-अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई ईस्टर को मानता हो, कोई अल्लाह को मानता हो, लेकिन हर धर्म की एक अलग पहचान होती है।

जैसे कि हिन्दू अपने सिर पर तिलक लगाते हैं, तो मुसलमान महिलाएं हिजाब पहनती हैं। हिजाब पहनना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन आजकल हमारे देश के कई हिस्सों में हिजाब पहनने की वजह से उनके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे देश में मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होती है। जैसे कि आज कर्नाटक में 30 से 40 कॉलेजेज़ बंद पड़े हैं। जबरदस्ती हिजाब उतारने की कोशिश की जा रही है।... (व्यवधान) हिन्दुस्तान में इस तरीके के घिनौने काम न हों।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप क्या बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि सरकार हिजाब के मसले पर सदन के अंदर एक बयान तो दे।... (व्यवधान) सरकार की यह जिम्मेवारी... (व्यवधान)

**SHRI S.C. UDASI (HAVERI):** As regards hijab, the Congress Party is making a hue and cry, which is not correct. ... (*Interruptions*) Throughout the country including in Madhya Pradesh and even in Maharashtra there were court cases, and the court has clearly stated that public interest should prevail instead of personal interest. ... (*Interruptions*) It is a State subject. ... (*Interruptions*) A rule has already been passed in Karnataka. ... (*Interruptions*) Further, the matter is *sub judice*. ... (*Interruptions*) So, this issue should not be raised and it should not always be repeated here. ... (*Interruptions*) Thank you, Sir. ... (*Interruptions*)

### **17.16 hrs**

*At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Dr. Farooq Abdullah, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members left the House.*

-